

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 440]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 मई 2025 — वैशाख 31, शक 1947

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 मई 2025

अधिसूचना

File No.RULE/72/2025-EXCISE(40).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, “छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995” में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियम में—

(1) नियम 6 के उप-नियम (7) के पश्चात् नियम 6 के उप-नियम (8) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्—

“(8) सीलबंद बोतलो में देशी मदिरा का परिवहन :-

- (1) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देशी मदिरा के परिवहन के लिए अधिकृत परिवहनकर्ता द्वारा देशी मदिरा का प्रदाय भण्डारण भाण्डागार से लिया जाकर देशी मदिरा दुकान/कम्पोजिट मदिरा दुकान तक आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के माध्यम से समय-सीमा के भीतर किया जावेगा।
- (2) यदि एक से अधिक देशी मदिरा दुकान/कम्पोजिट मदिरा दुकान एक ही मार्ग (ROUTE) पर स्थित है तो आवश्यक होने पर एक से अधिक परन्तु अधिकतम तीन मदिरा दुकानों हेतु मदिरा का परिवहन एक ही वाहन से किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रत्येक मदिरा दुकानों के लिए पृथक-पृथक परिवहन परमिट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक दुकानों के लिए परिवहन हेतु निर्धारित समयावधि अंकित किया जावेगा।
- (3) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के लिये निर्धारित समय-सीमा में परिवहनकर्ता द्वारा मदिरा का परेषण पहुंचाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रथम मदिरा दुकान में मदिरा की आमद पूर्ण होने अर्थात् संपूर्ण मदिरा अनलोड होने के पश्चात् मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी अधिकारी/आबकारी मुख्य आरक्षक/आबकारी आरक्षक द्वारा वाहन को आगामी मदिरा दुकान तक के लिये रवाना किया जावेगा, जिसमें उस दुकान की परमिट में वाहन के रवानगी की तिथि, समय एवं परिवहन की अवधि अपने हस्ताक्षर एवं सील के साथ अंकित करेगा। तत्पश्चात् उक्त द्वितीय मदिरा दुकान की दूरी के आधार पर निर्धारित समय पर वाहन का पहुंचना अनिवार्य होगा। पुनः आगामी

तृतीय मदिरा दुकान के स्कंध के संबंध में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जावेगी। इस प्रक्रिया में परिवहन परमिट में जारी की गई समयावधि में स्वाभाविक अंतर परिलक्षित होना संभावित है।

- (4) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के अलावा अन्य समस्त मदिरा दुकानों के लिये रुपये 500/- प्रति दुकान की दर से परिवहन सुविधा शुल्क देय होगा, जिसे परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं वहन करते हुए विभागीय मुख्य शीर्ष 0039, लघु शीर्ष 800, अन्य प्राप्तियाँ मद में भाण्डारण-भाण्डागार से मदिरा परिवहन हेतु मदिरा का वाहन में लोड होने के पूर्व ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जावेगा। ऐसे जमा किये गये चालान की प्रति भाण्डारण-भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वाहन में एक से अधिक मदिरा दुकानों का स्कंध एक साथ परिवहन करने की अनुमति भाण्डारण-भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी के द्वारा दी जावेगी।
- (5) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में जमा परिवहन सुविधा शुल्क की मासिक जानकारी भाण्डारण-भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा।
- (6) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा जमा किया गया परिवहन सुविधा शुल्क की राशि न तो वापसी योग्य होगी और न ही मदिरा का परिवहन नहीं किए जाने की स्थिति में किसी भी मद में समायोजन योग्य होगी।
- (7) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में मदिरा का परिवहन करने के पूर्व मदिरा का लोडिंग इस प्रकार किया जावेगा कि मदिरा के परिवहन हेतु निर्धारित प्रथम मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अंतिम में लोड किया जावे इसी प्रकार अन्य मदिरा दुकानों की मदिरा का लोडिंग इस प्रकार से किया जावे की किसी भी मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अन्य मदिरा दुकान की मदिरा से मिश्रित ना हो जावे इस हेतु पार्टीशन का कार्य किया जाना होगा एवं केवल उसी संबंधित दुकान में ही मदिरा का अनलोड किया जा सके।
- (8) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में यद्यपि परिवहनकर्ता द्वारा एक ही मार्ग (ROUTE) की अधिकतम तीन मदिरा दुकानों की मदिरा का परिवहन किया जा सकेगा, परन्तु इस हेतु तीनों मदिरा दुकानों के लिये परमिट तैयार होने की प्रतीक्षा नहीं किया जाकर, मदिरा दुकानों में मदिरा की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध परमिट पर परिवहन हेतु तत्काल वाहन की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
- (9) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में उपरोक्त उपनियम-8 में उल्लेखित नियमोंके उल्लंघनया इन नियमों में से किसी नियम या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन के लिये आबकारी आयुक्त संबंधित परिवहनकर्ता पर न्यूनतम 50,000 से 5,00,000/- रुपये (पचास हजार से पांच लाख रुपये) तक की शास्ति एवं ऐसे उल्लंघन के लगातार चालू रहने की दशा में ऐसी और शास्ति जो ऐसे प्रत्येक दिन के जिसके दौरान ऐसा भंग या उल्लंघन चालू रहता है, तो न्यूनतम 1000/- से 10,000/- रुपये (एक हजार से दस हजार रुपये) तक की अतिरिक्तशास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(2) प्रारूप सी.एस.6(ख) के स्थान पर नवीन प्रारूप सी.एस.6(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :-

परिवहन अनुज्ञा पत्र

प्रारूप सी.एस.-6(ख)

प्रथम भाग: (जारी करने वाले कार्यालय में रखा जावे)

प्रदाय आदेश क्रमांक/2025-26 दिनांक

..... सी.एस.2 (घघ) लायसेंसी देशी मदिरा दुकान जिला वर्षद्वारा निम्नानुसार देशी मदिरा की देय ड्यूटी राशि जमा करने पर भण्डारण-भाण्डागार से निम्नानुसार देशी मदिरा प्रदाय हेतु आदेशित किया जाता है। यह अनुज्ञा-पत्र केवल दिनांकतक विधि मान्य होगा।

क्रमांक	मदिरा का प्रकार	पू.लो.	जमा ड्यूटी राशि	चालान क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	मसाला				
2.	प्लेन				
	अधिभार की राशि				
	योग :- (शब्दों में) :-				

उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त
आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी
..... (छ.ग.)

क्र.	मदिरा का प्रकार	बोतल	अब्दी	पाव	प्रू ली.	बैच नंबर
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाणित किया जाता है कि वाहन क्रमांक ऊपर दर्शित देशी मदिरा (होलोग्राम चस्पा) सहित तारीख को पूर्वान्ह/अपरान्ह खाना हुआ परेषण परिवहन में तोड़ा नहीं जाएगा तथा अपने गंतव्य स्थान तक होते हुए परिवहन किया जावेगा।

स्थान —

दिनांक समय.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

भण्डारण भण्डागार अधिकारी
के हस्ताक्षर (सील सहित)

परिवहन अनुज्ञा पत्र

प्ररूप सी.एस.—6(ख)

द्वितीय भाग: (क्रेता को सौंप दिया जावे, जो परिवहन के दौरान परेषण के साथ रहेगा)

प्रदाय आदेश क्रमांक/2025—26 दिनांक

..... सी.एस.2 (घघ) लायसेंसी देशी मदिरा दुकान जिला वर्ष द्वारा निम्नानुसार देशी मदिरा की देय ड्यूटी राशि जमा करने पर भण्डारण-भण्डागार से निम्नानुसार देशी मदिरा प्रदाय हेतु आदेशित किया जाता है। यह अनुज्ञा-पत्र केवल दिनांक तक विधि मान्य होगा।

विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	मदिरा का प्रकार	पू. लो.	जमा ड्यूटी राशि	चालान क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	मसाला				
2.	प्लेन				
	अधिभार की राशि				
	योग :- (शब्दों में) :-				

भण्डारण-भण्डागार अधिकारी उपरोक्तानुसार मदिरा प्रदाय देना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- चालानकी मूल प्रति

उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त
आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी
..... (छ.ग.)

क्र.	मदिरा का प्रकार	बोतल	अद्धी	पाव	प्रू ली.	बैच नंबर
1	2	3	4	5	6	7

क्रमांक	मदिरा का प्रकार	पू.लो.	जमा ड्यूटी राशि	चालान क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	मसाला				
2.	प्लेन				
	अधिभार की राशि				
	योग :- (शब्दों में) :-				

उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त
आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी
..... (छ.ग.)

क्र.	मदिरा का प्रकार	बोतल	अद्धी	पाव	प्रू ली.	बैच नंबर
1	2	3	4	5	6	7

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.